

# Monnet Ispat & Energy Limited

**Corporate Office:** Art Guild House, A-Wing 2<sup>nd</sup> Floor, Unit No-13, Phoenix Mall Compound,  
LBS Marg, Kurla West, Mumbai – 400 070

**CIN:** L02710CT1990PLC009826, **GST :** 27AAACM0501D2Z9

**Phone:**, +91 22 68826700 ; **E-mail :** isc\_miel@aionjsw.in; **Website :** www.aionjsw.in

---

## **E-mail/ Online Upload Copy**

**4 August, 2020**

### **DGM-Dept. of Corporate Services**

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

**MUMBAI-400001**

### **Listing Department**

**National Stock Exchange of India**

'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex

**MUMBAI-400051**

### **Listing Department**

**Calcutta Stock Exchange limited**

"7, Lyons Range,

**KOLKATA-700001,**

**BSE Scrip Code: 513446 / NSE Scrip Code: AIONJSW**

**Sub: Intimation pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Newspaper Advertisements for Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.**

Dear Sir,

This has reference to Regulation 30(6) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations").

In connection with the above, please find attached the copy of newspaper clippings published in Financial Express (English) and Raj Express (Hindi) on 04<sup>th</sup> August, 2020, for attention of the shareholders pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Monnet Ispat and Energy Limited**

**(Ajay Kadhao)**

**Company Secretary &**

**Compliance Officer**

Contact: +91 22 68826700

**MONNET ISPAT AND ENERGY LIMITED****Registered Office:** Monnet Marg, Mandir Hasaud, Raipur-492101 (Chhattisgarh)**Phone:** +91 771 2471 334; **Fax:** +91 771 2471250**Corp. Office:** Art Guild House, A-Wing 2nd Floor, Unit No- 13, Phoenix Mall Compound, LBS Marg, Kurla West, Mumbai- 400070 (Maharashtra)**Email:** isc\_miel@aionjsw.in; **Website:** www.aionjsw.in**Phone:** +91. +91.22.68826700; **CIN:** L02710CT1990PLC009826**NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS  
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR  
EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY**

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"), it is hereby notified that all equity shares of the Company in respect of which dividend has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years will be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") in the prescribed manner.

In compliance with the said Rules, the required communication is being sent individually to the concerned shareholders electronically on their registered email address and in physical mode to those shareholders whose email-ids are not registered with the Company, who have not claimed the **dividend declared for the financial year 2012-2013** to claim the said dividend immediately **on or before 30th September 2020** failing which the Company shall transfer the said unclaimed dividends as well as the corresponding the equity shares to the IEPF Authority as per the procedure stipulated in the Rules.

The Company has uploaded relevant details of unpaid/unclaimed dividend payable to such shareholders which are due for transfer to IEPF Authority on Company's weblink: **<https://www.aionjsw.in/investors/investor-education-protection>**.

The shareholders may further note that the details uploaded on the Company's website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new Share Certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority pursuant to the Rules.

The shareholders further note that, both the unclaimed dividend(s) and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits accruing on those shares, if any, can be separately claimed back by them from IEPF Authority.

The concerned shareholders are requested to encash/claim the unclaimed dividend, if any, by making an application to Registrar and Transfer Agent before 30th September, 2020 otherwise both the unclaimed dividend(s) and the corresponding shares shall be transferred to IEPF Authority by following the procedure prescribed under the Rules;

- The concerned **shareholders, holding shares in physical form** and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.
- In case the **shares are held by the concerned shareholders in DEMAT form**, the Company shall inform the relevant depository by way of corporate action for transfer of such shares to the IEPF Authority.

**If the Company does not receive any communication with valid claim from the concerned shareholders for claiming their unclaimed dividends on or before 30th September, 2020, the Company in compliance with the provisions of the said Rules shall transfer their shares to IEPF Authority.**

**No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and shares which are transferred to IEPF pursuant to the said Rules.**

For any further information/clarification on the above matter, shareholders can write to the Company's Registrar and Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi- 110020, Tel: 011-4140 6149/8, E-mail: [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) or [helpdeskdelhi@mcsregistrars.com](mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com) or to the Company at email: [isc\\_miel@aionjsw.in](mailto:isc_miel@aionjsw.in).

**For MONNET ISPAT AND ENERGY LIMITED**

Sd/-

**Date:** 02<sup>nd</sup> August, 2020**Place:** Mumbai**AJAY KADHAO****COMPANY SECRETARY**



## मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: मोनेट मार्ग, मंदिर हासौद, रायपुर -492101 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष : +91 771 2471 334 : फैक्स : +91 771 2471250

कार्पोरेट कार्यालय: आर्ट गिल्ड हाउस, ए-विंग, द्वितीय तल, यूनिट नं.-13,  
फीनिक्स मॉल कंपाउंड, एलबीएस मार्ग, कुर्ला वेस्ट, मुम्बई-400070 (महाराष्ट्र)

ईमेल : [isc\\_miel@aionjsw.in](mailto:isc_miel@aionjsw.in) वेबसाइट : [www.aionjsw.in](http://www.aionjsw.in)

दूरभाष : +91. +91.22.68826700; सीआईएन: L02710CT1990PLC009826

### सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) डीमैट खाते में  
कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कंपनीज एक्ट, 2013 ("अधिनियम") एवं निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियम, 2016 के साथ और संशोधित ("नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई है। अन्य मामलों के बीच, आईईपीएफ नियम में, सभी शेयर जिनके सम्बन्ध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लामांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

इसके अलावा, नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते के कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ईमेल एड्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एवं उन शेयरधारकों जिनकी ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं है उनको भौतिक रूप से सूचना प्रदान कर रही है, वो शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2012-2013 के घोषित लामांश के लिये दावा नहीं किया है, वे तत्काल 30 सितंबर, 2020 को या इसके पूर्व उपरोक्त लामांश का दावा प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर कंपनी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ अर्थोरिटी में हस्तांतरण कर देगी।

कंपनी ने अपनी वेबलिक: <https://www.aionjsw.in/investors/investor-education-protection> पर ऐसे शेयर धारकों के भुगतान न किये / दावे न किये लामांश का पूरा संबंधित विवरण अपलोड कर दिया है। और शेयर धारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ खाते में हस्तान्तरित वाले लामांश की जानकारी सत्यापित करें। कंपनी ने वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरणों को प्रयाप्त सूचना माने।

शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि नियमों के अनुसार शेयरों के आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरण के उद्देश्य हेतु कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड विवरण के अनुसार नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सूचना पर्याप्त मान्य एवं स्वीकृत होगी।

संबंधित शेयरधारक यह ध्यान दें कि, दोनों अदावाकृत लामांश और आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित शेयर और ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लामां सहित यदि कोई वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आईईपीएफ नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा किया जा सकता है।

संबंधित शेयरधारक से निवेदन है कि अदावाकृत लामांश को भुना/दावा कर लें, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को 30 सितंबर, 2020 के पूर्व एक आवेदन देकर, अन्यथा दोनों अदावाकृत लामांश एवं संबंधित शेयरों नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित कर दिये जायेंगे;

ए) संबंधित शेयरधारक, जो शेयरों के भौतिक रूप के धारक हैं एवं जिनका शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरण के लिये बाध्य हैं, ध्यान दें कि कंपनी डिमटेरियालाइजेशन के उद्देश्य से मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के स्थान पर नये शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरण के लिये ऐसे इश्यू, मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) जो कि उनके नाम से पंजीकृत हैं स्वतः निरस्त एवं गैर-परक्राम्य हो जायेंगे।

बी) संबंधित शेयरधारक, जो शेयरों के डीमैट रूप के धारक हैं- कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण को ऐसे शेयरों की हस्तान्तरण के लिए कॉरपरेट कार्यवाही के माध्यम से सम्बन्धित डीपोजिटरी को सूचित करेगी।

कंपनी संबंधित शेयरधारकों से दावा न किये गये लामांश के लिये 30 सितंबर, 2020 को या इसके पूर्व दावा प्राप्त करने का आवेदन प्राप्त नहीं करती है तब, कंपनी नियमों के अनुसार बिना किसी सूचना के शेयरों को आईईपीएफ अर्थोरिटी के डीमैट एकाउंट में हस्तांतरण के लिए नियमों के अनुसार प्रक्रिया तय कर हस्तांतरण करेगी।

उपरोक्त नियमों के अनुसार गैर दावा लामांश (शों) और हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त संबंध में अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिये शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, मै. (एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली- 110020, टेली: 011) 4140 6149/8, ई-मेल: [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) या [helpdeskdelhi@mcsregistrars.com](mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com) या कंपनी के ई-मेल-[isc\\_miel@aionjsw.in](mailto:isc_miel@aionjsw.in) पर लिख सकते हैं। कृते मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड

दिनांक : 02 अगस्त, 2020

स्थान : मुम्बई

हस्ता/

अजय कदव

कंपनी सेक्रेटरी